

## प्रेस नोट थाना गगहा दिनांक 31-01-2021

### गैंगेस्टर एक्ट की एक नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार थाना गगहा गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अरुण कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल मार्ग निर्देशन एवं जगताराम कनौजिया पुलिस उपाधीक्षक बासगाव के नेतृत्व में थानाध्यक्ष गगहा राज प्रकाश सिंह मय हमराह का० दीपू कुँवर, का० विजय कुमार यादव, का० विनीत कुमार यादव व म० का० नीरज पाण्डेय देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित तलाश वांछित, अभियुक्ता में कौड़ीराम में मौजूद थे कि मुखबीर खास आकर मिला और बताया कि साहब आपके थाने पर गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा गया है जिसकी अभियुक्ता रीना यादव पत्नी हरिशंकर यादव ग्राम डाड़ी रावत थाना बांसगाव अपने घर पर मौजूद है, यदि जल्द किया जाये तो पकड़ी जा सकती है कि मुखबीर की बात पर विश्वास करके हमराही म० का० व कर्मचारीगण के मुखबीर की बात से अवगत कराते हुये, मै थानाध्यक्ष मय हमराह के प्रस्थान कर ग्राम डड़ीरावत थाना बांसगाव अभियुक्ता के घर पहुँचा कि मुखबीर दरवाजे पर खड़ी पर एक महिला के तरफ ईशारा कर बताया कि साहब वही महिला है जो आपके मुकदमे से वांछित है। उक्त महिला के पास जाकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रीना यादव पत्नी हरिशंकर यादव निवासी ग्राम डाड़ी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर उम्र 30 वर्ष बताया जो मु० अ० सं० 01/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना बांसगांव के मुकदमें में वांछित अभियुक्ता है को कारण गिरफ्तारी बताते हुये म० का० नीरज पाण्डेय की मदद से करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी विधिक नियमों का पालन किया जा रहा है। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्ता के पति हरिशंकर यादव जो मौके पर मौजूद है अभियुक्ता रीना यादव उपरोक्त को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

#### गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

रीना यादव पत्नी हरिशंकर यादव निवासी ग्राम डाड़ी थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

#### गिरफ्तारी का स्थान व समय

बहद ग्राम डड़ीरावत थाना बांसगाव अभियुक्ता का घर दिनांक 31.1.21 व समय 10.30 बजे सुबह

#### अपराधिक इतिहास-

- 1-मु० अ० सं० 370/19 धारा 302, 120बी आईपीसी० थाना बासगाँव, गोरखपुर
- 2- मु० अ० सं० 01/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना बांसगांव, गोरखपुर

#### गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०गण –

- (1) श्री राजप्रकाश सिंह थानाध्यक्ष थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (2) का० दीपू कुँवर थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (3) का० विजय यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (4) का० विनीत यादव थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (5) म० का० नीरज पाण्डेय थाना गगहा जनपद गोरखपुर